



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019  
Bhadra 4, Monday, Sakā 1941–August 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
RAJASTHAN, JAIPUR  
ORDER**

**Jaipur August 14, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/7479** .-In exercise of powers conferrd under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Council Chittorgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Chittorgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Governement**

izi= \*\*d\*\*

dk;kZy; uxj ifj"kn fprkSMx<  
okMksZ dk iquZxBu

Ø-I-	okMZ la;k	uoxfBr okMksZ ds lhekadu dk fooj.k
1	1	jksykgsMk jksM ds mÜkj lkbZM es ckyw th dqEgkj ds edku ls izkajHk gksdj iwoZ dh rjQ pyrs gq, ukuwjke iztkir ds edku dks 'kkfey djr gq, mn;yky ds edku dks ysdj uxj ikfydk fd;ksLd nqdkuks dh vkcknh dks ysdj pksxkoMh jksM ds lgkjs&lgkjs mÜkj dh vksj pydj iwoZ dh vksj eqMrs gq, jkeizlkn ds edku dks ysrs gq, thou flag th >kyk ds edku rd igqpadj mÜkj dh vksj eqMdj if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, foØe VsUV gkml dks 'kkfey djds iwoZ es eqMdj 'e'kkn vyh ds edku rd igqapdj 'e'kkn vyh ds edku dks 'kkfey dj mÜkj dh vksj x.kiryky 'kkL=h] uUnyky vks>kk ds edku dks 'kkfey djrs gq, oUnuk@vkuUnhyky O;kl ds edku dks 'kkfey djrs gq, ;qlqQ HkkbZ ds edku dks 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek rd igqapdj if'pe eseqMdj ikfydk lhek ds lgkjs&lgkjs pydj nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, iou dk edku uxjikfydk dk ikdZ vkfn dks 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek

		ds lgkjs&lgkjs vkxs c<rs gq, nf{k.k dh vksj pyrs gq, iqu% ckyw th dqEgkj ds edku rd dk lEiw.kZ {kS= okMZ ua- 1 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 4] 9] 10] 11 dks lfEefyr dj cuk;k x;k gSA
2	2	v'kksd dqekj pkS/kjh dh nqdku ls pkyw gksdj mÜkj fn'kk es jksM ds iwoZ dh vkcknh 'kaHkwflag] ekuflag ,oa ejkBk th dk edku dks 'kkfey djrs gq, vyknhu th ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj jkes'oj lksuh dk edku 'kkfey djrs gq, ,oa nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj lMd ds iwoZ dh vkcknh Jh ,e-,p 'kekZ banw HkkbZ 'kkg ds edku o eftLn dks 'kkfey djrs gq, tekyq HkkbZ ds edku dks 'kkfey djrs gq, feB~Bwyky mik;/k; ds edku dks 'kkfey djrs gq, lMd Øksl djus ds ckn ukuhckbZ@ek/kqyky ds edku dks 'kkfey djrs gq, fd'kuyky catkjk ds edku ls iwoZ dh rjQ pyrs gq, jkefd'ku th ds edku dks 'kkfey djrs gq, lMd Øksl djus ds ckn c`teksgu lksaydh ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k dh vksj pyrs gq, vf[ky th n'kksjk ds edku ls gksrs gq, iqu% jksykgSMk jksM dh iwoZ fn'kk es ?kqedj v'kksd th pkS/kjh dh nqdku rd dk lEiw.kZ {kS= okMZ ua- 2 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 2] 3] 5] 6 dks lfEefyr dj cuk;k x;k gSA
3	3	श्री पीरू जी की दुकान से प्रारम्भ होकर रोलाहेडा रोड पर चलते हुए सांवरिया प्रोविजनल स्टोर को शामिल कर केवलराम सिकलीगर के मकान को लेते हुए अग्रवा मेडिकल को शामिल करते हुए पश्चिम चलते हुए महावीर विद्या मन्दिर पहुंच कर महावीर विद्या मन्दिर को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर चोगावडी रोड के मनोहर लाल के मकान को लेते हुए रोड क्रॉस कर उत्तर में मुड़कर गोविन्द सिंह के मकान को लेते हुए उत्तर में चलते हुए सरदार सिंह के मकान को लेते हुए पूर्व में मुड़कर खाली प्लाट को लेते हुए मनोहर सिंह शेखावत के मकान को लेते हुए दक्षिण में चलते हुए हीरालाल सोनी अभय दास के मकान को लेते हुए पूर्व में मुड़कर रोड क्रॉस कर पन्ना खां का मकान सामुदायिक भवन को लेते हुए पुनः पीरू जी की दुकान तक की सम्पूर्ण आबादी वार्ड नं. 3 कहलायेगा। जो कि जनगणना के ब्लॉक संख्या 1, 8/1, 8/2 को सम्मिलित कर बनाया गया है।
4	4	uanwckbZ tkV ds edku ls 'kq: gksdj if'pe es jksykgSMk jksM ds nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, 'e'kku dks 'kkfey dj nf{k.k dh ikfydk lhek ij pyrs gq, iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, guqeku eafnj rd igqapdj eafnj dks NksMdj mÜkj es pUnsfj;k gk-cksMZ ds fyad jksM ij igqapdj iwoZ fn'kk es eqMdj mÜkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, caVh dqpcank ds edku dks ysrs gq, iwoZ fn'kk es pyrs gq, f'ko eafnj] 'khryk ekrk eafnj ikuh dh Vadh ds ihNs okyh xyh es vkxs c<rs gq, mÜkj dh vkcknh jke ikdZ] lathouh ikdZ dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jksM Øksl djus ds ckn jsYos ykbZu rd igqapdj jsYos ykbZu ds lgkjs&lgkjs mÜkj dh vksj c<dj vkxs pydj if'pe dh fn'kk dh vksj eqMdj llnkj egsUnzflag ds edku dks 'kkfey djrs gq, vkxs pydj vkjih 'kekZ ds Hkw[k.M 17@Mh dks 'kkfey djrs

		gq, Hkaojyky ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es pyrs gq, eksgEen 'kjhQ ds edkukr dks 'kkfey djrs gq, o lehj nkl ds edku dks 'kkfey djrs gq, vkxs ls mÜkj dh vksj eqMdj ukjk;.k ekjokMk ds edku dkss 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es pyrs gq, iqu% uanwckbZ tkV ds edku rd IEiw.kZ {kS= okMZ ua- 4 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 16] 17] 19 dks lEefyr dj cuk;k x;k gSA
5	5	jksykgsMk jksM fLFkr ekrkth ds eafnj ,oa dqbZ ls izkajHk gksdj nf{k.k dh rjQ ls jksM Øksl dj banjflag ds edku dks 'kkfey djrs gq, dkyw xkofj;k ds edku dks ysrs gq, dSyk'kpUnz xkofj;k ds edku ls vkxs c<rs gq, jkeyky ekjokMk ds edku dks ysrs gq, jksM ds lgkjs&lgkjs iwoZ es pydj x.kifr th ds edku dks ysrs gq, mÜkj dh vksj pydj enuyky xokfj;k ds edku dks ysrs gq, jes'kpUnz tk;loky ds edku dks ysrs gq, iwoZ es eqMdj jksM Øksl djus ds ckn gqdepan lqFkkj dh nqdkuks dks 'kkfey djrs gq, mÜkj dh vksj uanyky 'kekZ dh nqdkuks dks ysdj izseflag ds edku dks 'kkfey dj vkxs pydj dqEgkjs ,oa tkVks dk eksgYyk 'kkfey djrs gq, iqu% jksykgsMk jksM fLFkr ekrkth dk eafnj rd dk IEiw.kZ {kS= okMZ ua- 5 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 7] 13] 14 dks lEefyr dj cuk;k x;k gSA
6	6	pUnsfj;k fLFkr jsYos QkVd ls izkajHk gksdj if'pe dh vksj jksM ds lgkjs&lgkjs jsYos dsfcu dks ysrs gq, ikfydk dh lQkbZ dsUnz] ,QlhvkbZ xksnke dks ysrs gq, if'pe dh vksj pyrs gq, jksM Øksl djus ds ckn jktdh; ek;/fed fo?kky; dks ysrs gq, if'pe fn'kk es c<rs gq, fouksn xk;jh ds edku dks 'kkfey djrs gq, 'khryk ekrk pkSd dks ysrs gq, lkeqnf;d pkSd igqapdj lkeqnf;d Hkou dks 'kkfey dj nf{k.k fn'kk es eqMrs gq, lhs/kk lh/kk pyrs gq, ';keyky gfjtu ds edku dks 'kkfey djrs gq, iqu% iwoZ fn'kk es eqMdj vkxs pyrs gq, eksgu daoj ds edkukr dks ysrs gq, [kjrjke ds edku dks 'kkfey djrs gq, jksM Øksl djus ds ckn ,QlhvkbZ xksnke dks ysrs gq, jsYos ykbZu ij igqapdj mÜkj dh rjQ eqMrs gq, iqu% jsYos QkVd rd dh vkcknh okMZ ua- 6 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 12@1] 12@2] 15 dks lEefyr dj cuk;k x;k gSA
7	7	jkenso th dk pUnsfj;k eaxjh ds uhps guqeku eafnj ls 'kq: gksdj if'pe es pyrs gq, eaxjh dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek rd igqapdj nf{k.k fn'kk dh vksj pyrs gq, iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek ls jkenso th dk pUnsfj;k es fufeZr DokVZj dks 'kkfey djrs gq, iwoZ es pyrs gq, mÜkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, vkaxuokMh Hkou dks NksMrs gq, mÜkj es pyrs gq, if'pe dh vkcknh o ikuh dh Vadh o Hkaojyky ykSgkj ds edku dks 'kkfey dj jksM Øksl dj iwoZ es pyrs gq, mÜkj dh vkcknh lhrjke ykSgkj ds edku dks 'kkfey djrs gq, jsYos ykbZu rd igqapdj jsYos

		<p>ykbZu dsfcu dks 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es eqMdj jsYos ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs pyrs gq, LVsfM;e ds lkeus jksM Øksl dj if'pe fn'kk es eqMrs gq, nf{k.k es Hkw[k.M la[;k 3@35 ds mÜkj es pyrs gq, ikdZ dks 'kkfey djrs gq, if'pe dh vkcknh VSxksj ifCyd Ldwy dks 'kkfey djrs gq, if'pe dh vksj pyrs gq, ljdkj th ds edku ua- 6@11 dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k dh vksj pyrs gq, iwoZ dh vkcknh ukscy Ldwy dks 'kkfey djrs gq, if'pe es eqMdj iqu% eaxjh ds uhps guqeku eafnj rd okMZ ua- 7 dgyk;sxA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 18] 20] 21 dks lfEefyr dj cuk;k x;k gSA</p>
8	8	<p>HkhyokMk jksM fLFkr cksfn;k.kk iwoZ fn'kk es iqfy;k ls pkyw gksdj cksfn;kuk ukys ds mÜkj Nksj ds lgkjs&amp;lgkjs iwohZ fn'kk es pyrs gq, mÜkj dh rjQ fjdks b.MLV<sup>ah</sup> ,sfj;k dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, xaHkhjh unh rd igqapdj xaHkhjh unh ds rV ls mÜkj fn'kk dh rjQ eqMdj unh ds rV ds lgkjs&amp;lgkjs vkxs c&lt;dj chlhMCY;w LVkQ dksyksuh dh fnokj rd igqapdj fnokj ds lgkjs&amp;lgkjs if'pe fn'kk es pyrs gq, b.MLV<sup>ah</sup> ,sfj;k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, HkhyokMk jksM fLFkr jktLFkku foÜk fuxe dss dk;kZy; igqapdj HkhyokMk jksM dks Øksl dj mÜkj fn'kk es eqMrs gq, vkj,lbZch dks 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es vkxs c&lt;rs gq, vkojk V<sup>a</sup>kaliksVZ ,oa bZuk.kh ekcZy dks 'kkfey djrs gq, chlhMCyw dh jsYos ykbZu dks ikj dj loksZn; vkJe rd igqapdj vkJe dks 'kkfey dj if'pe fn'kk es eqMdj jsYos ykbZu rd igqapdj nf{k.k fn'kk es eqMdj jsYos ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs vkxs c&lt;rs gq, jkenso th dk pUnsfj;k QkVd rd igqapdj if'pe es eqMdj jkenso th dk pUnsfj;k jksM ij pyrs gq, jksM ds nf{k.k dh rjQ dh vkcknh rstkth dk eafnj xkso/kZu iztkir ds edku dks 'kkfey djrs gq, jksM Øksl dj [kse th dqEgkj ds edku dks 'kkfey dj mÜkj es pyrs gq, ckcw Hkhy ds edku dks 'kkfey dj if'pe es es?kijt ds edku dks ysdj nf{k.k es pyrs gq, iwoZ dh vkcknh dks ysdj izrki jkoy ds edku dks 'kkfey dj if'pe es eqMdj jksM ij pyrs gq, nf{k.k dh vkcknh cSjxh dk edku uank th dk edku] Hkaojyky th ds edku dks 'kkfey dj nf{k.k es pyrs gq, jksM ds iwoZ dh vkcknh vkaxuokMh dks 'kkfey djrs gq, if'pe es pyrs gq, ikfydk ds lqyHk dkWEiysDI ,oa lkeqnf;d Hkou laLd`r Ldwy] jktdh; izkFkfed fo?kky; dks 'kkfey dj ikfydk lhek rd igqapdj nf{k.k es pyrs gq, ikfydk lhek ls iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, iwoZ es eqMdj mÜkj dh vkcknh dks jkenso th dk pUnsfj;k dks 'kkfey dj jsYos QkVd rd igqapdj mÜkj es eqMdj lh/ks jsYos ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs jkenso th dk pUnsfj;k jsYos QkVd rd igqapdj jsYos ykbZu Øksl dj ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs nf{k.k dh vksj pydj cksfn;kuk ukys rd igqapdj iwoZ es eqMdj ukys ds fdukjs&amp;fdukjs pyrs gq, mÜkj dh vkcknh dkfydk uxj] fdrhZ uxj] pUnsfj;k Fkkuk</p>

		vkfn dks 'kkfey djrs gq, HkhyokMk eq[; ekxZ ij igqpdj okMZ ua- 8 dgyk;sxkA tks fd tux.kuk ds CykWd la[;k 24@1] 22] 23] 173@01] 174 dks lfEefyr dj cuk;k x;k gSA
9	9	भीलवाडा रोड पर न्यायालय परिसर के दक्षिणी-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में रोड के सहारे-सहारे चलते हुए जिला परिषद, कलेक्ट्री परिसर, पंचायत समिति, इन्द्रा मार्केट रोड क्रॉस कर विद्युत विभाग, रा.उ.मा.विद्यालय, जिला शिक्षा कार्या, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, छात्रावास को लते हुए राजस्टोन, रोड क्रॉस कर रोड के सहारे-सहारे चलते हुए भरत जी जागेटिया के शो रूम को लेते हुए बेडच नदी की पुलिया तक पहुंच कर दक्षिण में मुडकर नदी के सहारे-सहारे दक्षिण में चलते हुए शास्त्रीनगर की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए नदी के किनारे पर चलते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंच, पुलिया तक पहुंच, रेल्वे लाईल के सहारे-सहारे चलते हुए पीडब्ल्यूडी के गोदाम तक पहुंच कर पूर्व में मुडकर पुनः भीलवाडा रोड पर न्यायालय परिसर के दक्षिणी-पूर्वी कोने पहुंच कर उसके बीच की सम्पूर्ण आबादी वार्ड नं. 9 कहलायेगा। जो कि जनगणना ब्लॉक संख्या 26, 27/1, 27/2, 36 सम्मिलित करके बनाया गया है।
10	10	HkhyokMk jksM ij fLFkr Jh xksikyky tktw ds edku ls izkjEHk gksdj HkhyokMk jksM ij nf{k.k esa pyrs gq, vkbZMhchvkbZ cSad ysrs gq, jksM Øksl dj efgUnzk cSad o tkyh dk dkj[kkuk dks ysrs gq, jksM Øksl dj vkcdkjh dk fuekZ.kk/khu edku ysrs gq, dysDV <sup>ah</sup> pkSjks ij fouk;d gksVy rd iggap dj iwoZ esa eqM dj jksM ds lgkjs&lgkjs iqoZ esa pyrs gq, ,lchvkbZ cSad] i'kq fpfdRlky; dks ysrs gq, jksM Øksl dj dksrokyh] miHkksDrk Hk.Mkj dks ysrs gq, xEHkhjh unh ds fdukjs ij iggap dj mÜkj esa eqM dj pyrs gq, if'pe esa eqMdj d`f`k Hkwfe esa pyrs gq, laxe jksM ij igqp dj Nxuyky lqFkkj ds edku dks ysrs gq, if'pe esa pyrs gq, fueZy p.Mkfy;k ds edku dks ysrs gq, ukjksfVDI dh ckm.M <sup>o</sup> okWy rd iggap dj nf{k.k esa eqMdj vkxs pyrs gq, ukdksZfVDI foHkkx ds nf{k.kh iwohZ dksus ij iggap dj dj iqu% if'pe esa eqMdj pyrs gq, iqu% Jh xksikyky tktw ds edku rd ds chp dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 10 dgyk;sxk ftlesa tux.kuk CykWd la[;k 30] 31@1] 31@2 dk lEiw.kZ Hkkx lfEefyr gSA
11	11	dySDV <sup>ah</sup> pkSjkgk ij fLFkr ukenso uedhu dh nqdku ls 'kq: gksdj iqjkus fpfdRlky; dh fnokj ds lgkjs&lgkjs nf{k.k es py dj jksM Øksl dj iqu% fn'kk dh vksj eqM dj ,lchvkbZ cSd o nwjlapkj dk;kZy; dks 'kkfey djrs gq, jsYos ykbZu ds lgkjs&lgkjs nf{k.k es eqMdj vkxs pydj iwoZ dh vksj eqMdj gsM iksLV vkWfQl ls jksM Øksl dj ds uxjikfydk dh nqdkus dks ysrs gq, iyZ gkWLiHvy dks 'kkfey djrs gq, xaHkhjh unh ds fdukjs&fdukjs mÜkj fn'kk dh vksj pyrs gq, jksMost cl LVs.M dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk dh vksj ekrkth dk eafnj tukuh gkWLiHvy vkfn dks 'kkfey djrs gq, iqu% dySDV <sup>ah</sup> pkSjks ij ukenso uedhu okys dh nqdku rd lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 11 dgyk;sxk] tks tux.kuk CykWd la[;k 32] 33] 34 o 35 dks feyk dj cuk gSA
12	12	HkhyokMk ckbZikl jksM dqEHkkuxj fLFkr f'koe

		<p>gksVy ls izkjEHk gksdj jksM ds lgkjs&amp;lgkjs if'pe dh vksj pyrs gq, MkW-th-,y- iqaxfy;k th ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es vkxs c&lt;rs gq, ujflag ekrk ds eafnj dks 'kkfey dj mÜkj fn'kk es eqMrs gq, xaxk th ijekj ds edku dks 'kkfey djrs gq, iwoZ fn'kk es pyrs gq, vkxs c&lt;dj mÜkj fn'kk es IMd ds lgkjs&amp;lgkjs pydj ,lih dqekor o dsMh egUr vkfn ds edkuks dks 'kkfey djrs gq, ih-,u-Vh- dksyksuh dh fnokj ds lgkjs&amp;lgkjs if'pe es pyrs gq, ih-,u-Vh- dksyksuh dh fnokj ds lgkjs&amp;lgkjs mÜkj es eqMdj iqfyl ykbZu jksM Øksl dj dkth lk- dh cxhph dks 'kkfey djrs gq, /kusr dykW ekxZ ij igqapdj iqu% iwoZ eqM dj jsYos ykbZu rd igqap dj jsYos ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs nf{k.k fn'kk es tkdj usg: ikdZ dks 'kkfey djrs gq, iqu% mÜkj es eqMdj jsYos QkVd ds lgkjs&amp;lgkjs mÜkj fn'kk es c&lt;dj ckbZikl jksM Øksl dj iqu% f'koe gksVy rd igqap dj IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 12 dgyk;sxk] tks tux.kuk CykWd la[;k 37]38]40 dk IEiw.kZ {kS= gSA</p>
13	13	<p>dqEHkkuxj gk-cksMZ fLFkr ,ds- lqjk.kk ds edku ls izkajHk gksdj if'pe dh vksj pyrs gq, nf{k.k fn'kk es eqMdj 'kaHkwyky tSu ds edku [kVokuh ,oa jkeizlkn O;kl ds edku dks 'kkfey djrs gq, Hkjr cq d ds ikl xyh ls vanj eqMdj if'pe ess eqMdj dY;k.k flag th ds edku rd igqapdj iqu% if'pe fn'kk es eqMdj ,u,l xkSM ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es vkxs c&lt;dj dj.khekrk dk [ksMk dh vkcknh dks 'kkfey dj iqfyl ykbZu efgyk Fkkuk dks lfEefyr djrs gq, IEiw.kZ iqfyl ykbZu dks 'kkfey djrs gq, /kusr ekxZ ij igaqpdj iqu% iqfyl ykbZu dh fnokj ds lgkjs&amp;lgkjs mÜkj dh vksj c&lt;rs gq, iqfyl ykbZu ds eq[; }kj dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k fn'kk es vkxs c&lt;rs gq, iwoZ es eqMdj nf{k.k dh vkcknh] ukjk;.kth dhj] dj.kflag pks/kjh vkfn ds edkuks dks 'kkfey djrs gq, ,ds- lqjk.kk rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 13 dgyk;sxh] ftues tux.kuk CykWd ua- 39] 41@2]182 lfEefyr gSA</p>
14	14	<p>प्रताप नगर डाईट रोड से प्रारम्भ होकर उत्तर की दिशा में चलते हुए पश्चिम में मुडकर वीर रेजीडेन्सी को शामिल करते हुवे नदी के किनारे तक पहुंच कर नदी के सहारे-सहारे उत्तर दिशा में चलते हुवे देवनारायण मन्दिर एवं जे.के. पुरम को शामिल करते हुवे कालिका ज्ञान केन्द्र के सामने पहुंच कर पूर्व दिशा की और मुड कर दक्षिण की समस्त आबादी को लेते हुए नंदा कीर के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए कुम्भानगर मस्जिद को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुवे शिव शंकर व्यास के मकान को शामिल करते हुए पूर्व दिशा में मुड कर पानी की टंकी को शामिल कर दक्षिण में मुड कर गोपाल जी चोखडा के मकान को लेते हुए पुनः पश्चिम में पहुंच कर सीधे चलते हुए पारस जैन के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुड कर जाडावत साहब के मकान को लेते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए अब्दुल गफ्फूर के मकान को शामिल करते हुए उसके सामने से पश्चिम दिशा में मुडते हुए जमना लाल यादव के मकान को शामिल करते हुए आगे बढ कर प्रभूलाल मीणा के मकान को शामिल कर दक्षिण दिशा में मुडते हुए आगे बढ कर कोने पर स्थित जानकीलाल रेगर के मकान को शामिल कर पुनः पश्चिम में मुड कर लक्ष्मण रेगर के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुडते हुए नर्बदा भाम्बी के मकान से पश्चिम में</p>

		मुड कर रतन बेनीवाल जमादार के मकान एवं उत्तर की समस्त आबादी को लेते हुए पश्चिम की दिशा में डाईट रोड पर चलते हुए पुनः मोक्षधाम के सामने तक की सम्पूर्ण आबादी वार्ड नं. 14 कहलायेगी। जनगणना ब्लॉक 42, 48, 49/1 कहलायेगा
15	15	dqEHkkuxj ckbZikl jksM ij fLFkr Jh ulhj [kka ds iqjkus edku ls 'kq: gksdj if'pe es pyrs gq, tks Hkqokuk gftu ds edku dks 'kkfey djrs gq, eksgEen gqISu ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj /keZikyflag th jk.kkor ds edku dks 'kkfey djrs gq, iqu% eq[; IMd ls if'pe es eqMdj nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, guqeku eafnj ds vxks ls nf{k.k es eqMdj galjkt th odhy lk- ds edku dks ysrs gq, ek.kdyky dqekor ds edku dks 'kkfey dj iwoZ fn'kk es pyrs gq, mUkj dh vkcknh dks ysrs gq, lqeUr lqgkydk th ds edku dks ysrs gq, txnh'k ds lqij ekdsZV dks 'kkfey djrs gq, iwoZ fn'kk es eqMrs gq, vxks pyrs gq, ihMCywMh Mkd caxyk dks lFEefyr djrs gq, lfdZV gkml dks yssrs gq, iqu% ulhj [kka dh iqjkus edku rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 15 dgyk;sxhA tks tux.kuk CykWd la[;k 43] 44@1] 44@2] 45 dk lEiw.kZ Hkkx lFEefyr gSA
16	16	uxj ifj"kn rj.krky ls izkajHk gksdj nf{k.k fn'kk es pydj ftyk dyDVj vkokl dks ysrs gq, ou foHkkx] gks.Mk 'kks:e ds vxks edku dks ysrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj vxks pyrs gq, MkW- vuh'k tSu ds edku dks ysrs gq, IR;ukjk;.k eafnj ij igaqpdj mUkj es eqMdj nqdkuks dks ysrs gq, xfV;k.kh th ds edku@nqdku rd igaqp dj jksM Øksl dj if'pe fn'kk es eqM dj eksyguyky th cYnok ds edku dks ysrs gq, if'pe fn'kk es vxks c<rs gq, jktsUnz th xqlrk ds edku dks 'kkfey djrs gq, mUkj fn'kk es eqMdj jes'kpUn dqnky ds edku dks 'kkfey djrs gq, iqu% if'pe fn'kk es eqMdj mUkj dh vkcknh dks ysrs gq, pkSjkgs ls mUkj es eqMdj teukyky lkyoh ds edku dks 'kkfey djrs gq, dqEHkkuxj eftLn ds lkeus dh nqdku dks euh"k tujy LVksj dks ysr gq, iwoZ fn'kk es eqM dj dkUgk foyk ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj vxks pkyrs gq, lh,e jkadk] >aoj ds edku dks 'kkfey djrs gq, dUgS;kyky th p.Md ds edku dks 'kkfey dj iwoZ es eqMdj jk-m-izk-fo- dqEHkkuxj dks 'kkfey dj ?kksMks dh ik;xk dks ysrs gq, iqu% uxj ifj"kn rj.krky rd lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 16 dgyk;sxk] ftuls tux.kuk ds CykWd la[;k 46] 47@1] 47@2] 50 dk iw.kZ fgllk lFEefyr gSA
17	17	प्रताप नगर में श्री अत्तर सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा में चलते हुए पार्षद अशोक सोनी के मकान तक पहुंच कर तेजाजी चौक से उत्तर दिशा में मुडकर तेजाजी का मंदिर, हनुमान मंदिर की तरफ की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए शोक्त अली के मकान तक पहुंच कर पश्चिम दिशा में मुडकर सूरजमल कुमावत के मकान को लेते हुए दक्षिण में मुड कर पूर्व की आबादी को शामिल करते हुए शान्तिलाल नायक के मकान तक पहुंच कर पुनः दिशा में मुडकर मुकेश रेगर के मकान को शामिल करते हुए अर्जुन सिंह राजोरा के मकान को शामिल कर पुनः दक्षिण दिशा में मुडकर बाल मुकन्द जोशी के मकान को लेते हुए मयंक टेलीकॉम तक पहुंच कर पुर्व में मुड कर सीधे चलते हुए किरण भवन तक पहुंच कर उत्तर की

		और मुडकर सुखवाला प्रोपर्टी को शामिल कर अत्तर सिंह के मकान तक की सम्पूर्ण आबादी वार्ड नं. 17 कहलायेगी। जनसंख्या ब्लॉक
18	18	MkbZV jksM fLFkr Jh egs'k th Vkad ds edku ls 'kq: gksdj mÜkj dh vksj pyrs gq, lqyHk dkWEiysDI] okYehdh Hkou] izkjfHkad fo?kky; dks 'kkfey dj if'pe dh vksj pyrs gq,] >a>sfj;k rkykc dks lfEefyr dj eks{k/kke dks ysrs gq, csMp unh ds fdukjs rd igaqpdj nf{k.k es eqMdj uxj ifj"kn dh lhek ds lgkjs&lgkjs pydj jksat isVy Ldwy dks 'kkfey djrs gq, d".kk Ms;jh ds xksnkeks dks lfEefyr djrs gq, Hkxorhyky iksjoky] uhyd.B dksyksuh] f'kokth uxj dh vkcknh dks lfEefyr djrs gq,] iwoZ fn'kk es eqMdj lkeqnf;d Hkou dks ysrs gq, vEcsMdj dksyksuh dh leLr vkcknh dks ysrs gq, iwoZ fn'kk es vkxs c<rs gq, lqfuy Hkkstokuh ds edku dks 'kkfey djrs gq, ljnkj fd'kuflag ds ¶ysVks dks lfEefyr djrs gq, mÜkj fn'kk es eqMdj ekW fgaxykt dysD'ku dks lfEefyr djrs gq, [kkyh Hkw[k.M ls if'pe fn'kk es eqMdj Jh ,l,u lenkuh ds edku dks ysrs gq, if'pe fn'kk es vkxs c<dj ?ku';ke Qqyokuh ds edku rd igaqpdj mÜkj fn'kk es eqMdj Jh th,y eh.kk th ,oa ih,uVh dksyksuh dks lfEefyr djrs gq, iqu% if'pe fn'kk es eqMdj f'ko eafnj dks ysrs gq, Jh ,e-ds- eh.kk th ds edku rd 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es eqMdj jktdh; ckfydk m-izk- fo?kky; dh ySV <sup>a</sup> huks dks ysrs gq, jktdqekj pkS/kjh ds edku rd igaqpdj iwoZ dh vksj eqMdj egs'k th jko ds edku rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 18 dgyk;sxhA ftuls tux.kuk ds CykWd la[:k 54@1] 54@2] 56@1] 56@2 dk iw.kZ fgLlk lfEefyr gSA
19	19	izrkuxj fLFkr xq:}kjk dh nqdkuks lss 'kekZ LVwfM;ks ls izkajHk gksdj if'pe dh vksj pkyrs gq, nf{k.k iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey dj d.Mkjk ds [kkyh lykV ls nf{k.k fn'kk dh vksj pyrs gq, Jh Hkoajyky cSjok ds edku ls lMd Øksl dj mÜkj fn'kk dh vksj eqMrs gq, nf{k.k if'pe dh vkcnh dks 'kkfey djrs gq, jkenso th ds eafnj dh ckm.M <sup>a</sup> h ls if'pe fn'kk dh vksj pyrs gq, 'kfDrflag th jko] Vh,u O;kl th ds edku dks 'kkfey djrs gq, f'kon;ky th 'kekZ ds edku ls igys mÜkj fn'kk es eqMdj lqjs'k HkVukxj ds edku dks 'kkfey dj if'pe es eqMrs gq, egkohj Hkou rd igaqpdj nf{k.k es eqMdj vkxs pyrs gq, iwoZ fn'kk es eqMdj iwuepUn ;kno ds edku dks ysrs gq, ,ych,l Ldwy dks 'kkfey dj vkseizdk'k mik;/k; lk- ds edku dks ysrs gq, ih,uVh dksyksuh dh mÜkj fhnoj ds lkFk&lkFk pyrs gq, lMd Øksl dj nf{k.k dh vksj Mkyw eh.kk ds edu ls nf{k.k dh vksj pyrs gq, vkseizdk'k 'kekZ ds edku dks 'kkfey djrs gq, Jh xjck ekrk th ds pkSd dks 'kkfey djrs gq, iwoZ fn'kk es jksM ds lkFk&lkFk pyrs fla/kh lekt ds [kkyh Hkw[k.M dks 'kkfey djrs gq, jkenso th ds eafnj dh dqbZ rd igaqpdj mÜkj fn'kk es eqMdj lsDVj dk;kZy; jsu



		clsjk dks 'kkfey djrs gq, iqu% xq;}kjk fLFkr nqdkuks] 'kekZ LVwfM;ks igqapdj lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 19 dgyk;sxh] ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 55@1] 55@2] 58@1] 58@2 dk iw.kZ fgLlk lEefyr gSA
20	20	izrkiuxj pkSjkgk Jh gjhnl th fcyksph ds utnhd [kkyh Hkw[k.M ls mUkj fn'kk es pyrs gq;s iwoZ izkpk;Z Mh-lh-Hkk.kkor lkgc ds edku gksVy fdrhZ lytkk vkfn ds leLr {kS= dks 'kkfey djrs gq, 'kkUrhyky phiM ds edku rd igaqpdj mldks lEefyr djrs gq,] if'peh fn'kk es eqMrs gq, ikdZ ,oa xkso/kZuflag th] f'k'kksfn;k ds edku dks 'kkfey djrs gq, eFkqjkyky th O;kl ds edku rd igaqpdj nf{k.k fn'kk es eqMdj QOokjk pkSd dks 'kkfey djrs gq, if'pe es eqMdj vxukuh th ds U;w 'kkWi dks 'kkfey djrs gq, ljukeflag th fjVk;MZ Fkkusnkj lk- ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj pyrs gq, ckypUn th tSu ds edku dks 'kkfey djds iwoZ dh vksj eqMdj nsohyky th] fd'kuyky cSjok ds edku dks 'kkfey djrs gq, iwoZ dh vksj pyrs gq, xq;}kjk pkSd dks ikj djds nf{k.k fn'kk es eqMdj pknqey fla/kh] fpeu Hkou vkfn dks 'kkfey djrs gq, jes'k tujy LVksj rd igaqpdj iqu% iwoZ fn'kk es eqMdj d'".kk Ms;jh] xq:ukud csdjh dks 'kkfey djrs gq, iqu% izrkiuxj pkSjkgk rd dk {kS= okMZ ua- 20 dgyk;sxA ftles tux.kuk CykWd ua- 53] 59] 60 dk lEiw.kZ {kS= lEefyr gSA
21	21	izrki ikdZ ls izkajHk gksdj nf{k.kh fn'kk es pyrs gq, xkfM;k ykSgkj dkWyst ,oa lkaofy;k fpdfRlky; dks 'kkfey djrs gq, e.Mh fnokj dkuZj ls eqMdj iwoZ dh vksj pyrs gq, mifuns'kd d'f"knokj ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, nf{k.k dh vksj eqMdj fuEckgsMk jksM ij vkdj mifuns'kd d'f"knokj; dks 'kkfey djrs gq, mUkj dh vksj eqMdj fuEckgsMk eq[; lMd dks ikj dj pkeVh [ksMk jkLrs ds ikl okyh d'f"knokj foHkkx dh pkjnfokjh ds mUkj&if'peh dksus rd igqapdj iwoZ es eqMdj jsYos ykbZu rd igqapdj jsYos ykbZu ds lgkjs&lgkjs mUkj fn'kk es c<rs gq, if'pe dh jsYos dksyksuh] gksVy ehjk] thvkjih Fkkuk vkfn dks 'kkfey djrs gq, vkcdkjh foHkkx ds lkeus cuh nqdkuks dks ysrs gq, if'pe es eqMdj lMd Øksl dj iqu% izrki ikdZ rd okMZ ua- 21 dgyk;sxA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 61] 62] 83@1] 83@2 lEefyr gSA
22	22	mn;iqj jksM ij fLFkr xq:ukud fdjk.kk LVksj ls izkajHk gksdj t;jke nkl rkyk pkch okys dh nqdku dks 'kkfey djrs gq, if'pe dh vksj pyrs gq, fot; fdjk.kk LVksj rd igaqpdj nf{k.k dh vksj eqMdj pyrs gq, ca'khyky [kVhd ds edku rd igaqpdj if'pe dh vksj pydj nf{k.k dh vksj eqMdj izrkiuxj gkmflax cksMZ dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, thou izdk'k eqjM;k ds edku ls if'pe fn'kk es eqMdj lh/ks vkxs c<rs gq, nqzkZ'kadj jtd ds edku dks ysrs gq, c'teksgu jkBkSM ds edku dks lEefyr djrs gq, nf{k.k fn'kk es eqMdj lh/ks pyrs gq,

		,Moksdsv lqHkk" k 'kekZ ds edku dks 'kkfey dj iwoZ fn'kk es eqMrs gq, ckcw yky ekyw ds edku dks lfEefyr djrs gq, iqu% mUkj fn'kk es pyrs gq, fd'kksj oklokuh ds edku dks lfEefyr djrs gq, iwoZ fn'kk es eqMdj jksM Øksl dj MkW-JhokLro ds fjDr Hkw[k.M dks lfEefyr djrsgq, ukdsnkj 'kekZ th ds edku dks 'kkfey dj iqu% mUkj fn'kk es eqMdj mn;flag [kaxkjsr ds edku dks 'kkfey dj jksM Øksl dj iwoZ fn'kk es eqMdj v'kksd frokjh ds edku dks lfEefyr djrs gq, mUkj fn'kk es eqMdj MkW- l:ifj;k] tsjkenkl usHkukuh ds edku dks ysrs gq, iqu% xq:ukud fdjk.kk LVksj rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 22 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 63@1] 63@2] 64 o 66@1 dk lEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
23	23	dU;k xq:dqy dh fnokj ds if'pe dh vksj ls izkajHk gksdj if'pe es pyrs gq, ca'khyky lsu ds edku dks ysrs gq, LVs'ku xYIZ Ldwy dh fnokj ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, ikfydk lhek rd igaqpdj nf{k.k es eqMdj iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek ds lgkjs&lgkjs [knkuks dks 'kkfey djrs gq, iwoZ es eqMdj nsoukjk;k okfVdk lsarh eks{k/kke dks yssrs gq, iwoZ dh vksj pyrs gq, eqUuk xqtZj ds edku dks 'kkfey djrs gq, mUkj fn'kk es pyrs gq, ikuh dh Vadh dks 'kkfey djrs gq, if'pe vksj dh lEiw.kZ dPph cLrh dks 'kkfey djrs gq, mUkj dh vksj c<rs gq, ,QlhvkbZ xksnke ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, xksnke ds mUkj ihohZ dksus ij vkdj iwoZ fn'kk es eqMdj jtkjke Vkad ds edku dks ysrs gq, 'kkUrh@jkeiky ds edku rd igaqp dj mUkj fn'kk es eqMdj xq:dqy dh fnokj ds lgkjs&lgkjs uxjikfydk deZpkjh dksyksuh dks 'kkfey djrs gq, iqu% xq:dqy dh fnokj if'peh dksus rd igqap dj leLr vkcknh okMZ ua- 23 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 57] 67@1] 67@2] 68 dk lEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
24	24	mn;iqj jksM ij fLFkr jktikyflag ds edku ls izkajHk gksdj nf{k.k es pyrs gq, vkjk/kuk gksVy] jkW;y bZu gksVy dks ysrs gq, ukgj fcYMhax dks ysrs gq, xyh ua- 10 ds dksus ij fLFkr LkDIsuk th ds edku dks lfEefyr djrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj eqUuk xqtZj ds edku rd igqap dj mUkj fn'kk es eqMdj MkW- fnus'k oS".ko ds edku dks ysdj Jh vkjih O;kl ,oa ikjl th tSu ds edku dks 'kkfey djrs gq, lqjs'kpUnz lsu ds edku u a- 6@bZ dks ysdj ;kno fd'kksj lkaofj;k ds edku dks lfEefyr djds iwoZ fn'kk es eqMdj guqeku eafnj dh if'pe fnokj rd igaqp dj mUkj fn'kk es eqMdj pyrs gq, egsUnz dksj lywtk ds edku dks lfEefyr dj iwoZ fn'kk es eqMdj fp=xqlr eafnj dks ysrs gq, lMd Øksl dj mUkj es eqMdj lqtkrk Hkkj}kt ds leLr Hkw[k.Mks dks lfEefyr djrs gq, iqu% iwoZ es eqMdj jtkiky flag ds edku rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 24 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 65] 66@2] 69] 70 dk lEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA

25	25	Isarh ckiwuxj xyh ua- 10 ij fLFkr Jh lwjtizdk'k th ds edku ls if'pe dh vksj pyrs gq, jkeLo:lk th ds edku ua- 21@bZ ls nf{k.k dh vksj pyrs gq, ch-ds- th ds edku dks yrsrs gq, tSu lekt ds ukSgjs dks 'kkfey djrs gq, ifj"kn lhek ds lgkjs&lgkjs nf{k.k dh vksj pyrs gq, iwoZ dh fn'kk dh vksj eqMdj ifj"kn lhek ds lgkjs&lgkjs mn;iqj jksM ij igaqpdj mÙkj fn'kk es eqMdj Isarh gk;j ISd.Mjh Ldwy] 'kfu egkjkt eafnj dks 'kkfey djrs gq, iqu% ckiwuxj Isarh xyh ua- 10 Jh lwjtizdk'k th ds edku rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 25 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 71@1] 71@2] 72 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
26	26	mn;iqj jksM iqfy;k ls izkajHk gksdj iwoZ es pydj Isaxok gk-cksMZ dks 'kkfey djrs gq, mÙkj es eqMdj guqeku eafnj dks 'kkfey djrs gq, iwoZ fn'kk es eqMdj egs'kiqje~ jksM ij pydj iqu% mÙkj fn'kk es eqMdj Isaxok gk-cksMZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, yyhr th jkaor ds edku dks 'kkfey djrs gq, ikdZ o IEiw.kZ Isxok -gk-cksMZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, eaxy ik.Ms ikdZ ls if'pe fn'kk es eqMdj Jhjde esfMdy ds lkeus ls gksrs gq, Isaxok dh tkus okyh eq[; IMd ij igaqpdj IMd Øksl dj iqu% mÙkj fn'kk es eqMdj Hkwty foHkkx dks 'kkfey djrs gq, mn;iqj jksM ls iqu% nf{k.k fn'kk es igqapdj mn;iqj jksM ij fLFkr iqfy;k rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 26 dgyk;sxh] ftles tux.kuk CykWd ua- 73] 76@1] 184 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
27	27	mn;iqj jksM ls tkafxM Hkou ls izkajHk gksrs gq, Isarh iqfyl pkSdh ds lgkjs&lgkjs Isaxok jksM gksrs gq, os;j gkml dh if'pe fn'kkk ds lgkjs&lgkjs Jhjde esfMdy ds ihNs dh ykbZu dh vkcknh Jhefr iq"iknsoh 'kekZ o Jh fnyhi flag th ds edku dks yrsrs gq, fryd uxj] oS'kkyh uxj dh IEiw.kZ vkcknh dks lfEefyr djrs gq, o Isaxok gk-cksMZ o fryd uxj dh clh dPph cLrh dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, egs'kiqje~ dh IEiw.kZ vkcknh 'kkfey djrs gq, uxj ifj"kn lhek rd iqu% egs'kiqje ls mÙkj fn'kk es eqMdj eq[; IMd gksrs gq, Isarh es T;ksfrizdk'k fpeukuh ds edku ls esokyky [kVhd ds edku rd igaqpdj if'pe fn'kk es eqMdj mnk /kkdM ds edku rd nf{k.k fn'kk es eqMdj vkxs pyrs gq, mn;jke /kkdM ds edku rd igaqpdj IMd Øksl dj if'pe fn'kk dh vksj eqMdj IEiw.kZ vkcknh dks lfEefyr djrs gq, o jkeuxj dPph cLrh dh IEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, fcjyk gkWLiHvy dks 'kkfey djrs iqu% tkafxM Hkou rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 27 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 74] 75] 76@2] 82 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
28	28	fuEckgsMk jksM fLFkr fuEckgsMk ls pkeVh [ksMk tkus okys jkLrs ds nf{k.k es cuh d`f"k foHkkx dh pkjfnokjh ds mÙkj if'peh dksus ls izkajHk gksdj iwoZ es eqMdj jsYos ykbZu rd igaqpdj iqu% nf{k.k es eqMdj lat; ekFkqj dh

		<p>vkVZ xSyjh dks 'kkfey djrs gq, jsYos ykbZu ds lgkjs&amp;lgkjs pydj egkjkizrki uxj] vafglk uxj] xkfM;k ykSgkj dksyksuh] uxjikfydk paqxhukdk dks 'kkfey djrs gq, ifj"kn lhek rd igqapdj if'pe dh vksj eqMdj us'kuy gkbZos ua- 76 Øksl dj lEiw.kZ Hk.Mkfj;k xkao dks 'kkfey djrs gq, uxj ifj"kn dh lhek ls iqu% mÜkj es eqMdj lsarh fLFkr jruyky /kkdM ds [ksr vkSj lkeqnf;d Hkou dks 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es vkxs c&lt;dj vkseizdk'k 'kekZ ¼eksVj ckWMh dkj[kkuk½ ds edku dks 'kkfey djrs gq, iwoZ fn'kk es eqMdj lh/ks&amp;lh/ks pyrs gq, [;kyhyky th] dUgS;kyky th tkxsfV;k ds edku dks 'kkfey djrs gq, iqu% mÜkj fn'kk es eqMdj dSyk'k th lsu ,oa fnus'k th tk;loky ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k ,oa iwoZ dh fn'kk dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, e/kqou fyad jksM ij igqapdj iwoZ fn'kk dh vksj eqMdj esgrk th yqdkl okyks dks 'kkfey djrs gq, iqu% mÜkj fn'kk es eqMdj lh/ks&amp;lh/ks pyrs gq, iwoZ dh fn'kk es eqMdj iqu% fuEckgsMk jksM fLFkr pkeVh [ksMk ds nf{k.kh if'peh dksus ij igaqpdj lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 28 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 86@2] 87] 89@1] 9@2 lfEefyr gSA</p>
29	29	<p>lsarh eB ds lkeus guqeku eafnj ls izkajHk gksdj nf{k.k fn'kk es pydj pUnzizdk'k th iqjh dk [kkyh lykV ls iwoZ dh fn'kk es pydj d".k okfVdk] lkain lk- pUnzizdk'k th tks'kh vkfn ds edkukr dks ysrs gq, jk/ks';ke 'kekZ ds edku ls mÜkj fn'kk es xqedj fou; th iqjksfgr ds edku dks 'kkfey djrs gq, ujs'k HkMdR;k ds [kkyh Hkw[k.Mks rd o e/kqou eq[; lMd dks Øksl djrs gq, iwoZ fn'kk es pydj gfj'k th Max dh nqdku ds lgkjs&amp;lgkjs eks- 'kCchj HkkbZ dk edku xksikyiqjh dk edku o Lo- ukjk;.kflag th &gt;kyk ds edku dks 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk es pydj eq[; lMd fuEckgsMk jksM ds lgkjs&amp;lgkjs f'ko Hkkstuky; gksrs gq, d`f"m mifuns'kd lsDVj vkWfQl dh ckm.Mh oky rd iqu% if'pe fn'kk es vkfcn vgen] vdcj vyh ds edku ls gksVy dj.k iSysl ls if'pe fn'kk es uohu vxzoky ds edku] f'ko tks'kh] ujsUnz tks'kh] ds edku dks lfEefyr dj iqu% nf{k.k fn'kk es pydj Lusfgy Hkou ds lkeus jksM ls pydj ikuh dh Vadh o ikdZ ds vklikl dh vkcknh dks lfEefyr djrs gq, iqu% Lusfgy Hkou ds ikl igaqpdj nf{k.k fn'kk dh vksj eqMdj CykWd la[;k 78@2 dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, iqu% lsarh e/kqou eq[; lMd igaqp dj guqeku eafnj rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 29 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd ua- 78@2] 85] 86@1 dk lEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA</p>
30	30	<p>mn;iqj jksM fLFkr egs'kiqje ds jksM ls izkajHk gksdj iwoZ dh fn'kk lss pyrs gq, lsUV<sup>a</sup>y ,dsneh Ldwy ds lkeus ls gksrs gq, Ldwy dks NksMrs gq, Ldwy ds lkeus mÜkj fn'kk es pydj pkjHkqtk eafnj Hkaojyky th /kkdM ds edkus dks</p>

		'kkfey djrs gq, l;kjpUn th /kkdM ds edku rd igaqpdj iwoZ es eqMdj mÙkj dh vkcknh dks yrsr gq, pkSjks ij fLFkr l;kjpUnz /kkdM ds ckMs ls mÙkj es eqMdj if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jruyky jsxj ds edku rd igaqpdj iqjh th dk eB dks 'kkfey djrs gq, mÙkj fn'kk es vxrs c<rs gq, dkywyky jsxj ds edku vksj mldh nqdkukr dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj ijijke th ikyhoky] nsoukjk;.k eafnj dks 'kkfey djrs gq, vxrs c<rs gq, Hkxokuyky th xqtZj ds edku dks 'kkfey djrs gq, Hks:yky xqtZj ds edku dks 'kkfey djrs gq, mn;iqj eq[; jksM ij igqapdj nf{k.k fn'kk es eqMdj iwoZdh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jksM ds lgkjs&lgkjs nf{k.k fn'kk es vxrs c<rs gq, egs'kiqje ds xsV rd jktho xka/kh ikdZ dks 'kkfey djrs gq, lEiw.kZ vkcknh okMZ ua-30 dgyk;sxA ftles tux.kuk CykWd ua- 77] 80@2] 81 dk {kS= lfEefyr gSA
31	31	mn;iqj jksM fLFkr e.Mh dh fnokj ls izkajHk gksdj nf{k.k dh vksj pyrs gq, U;w vfEcdk LohV gkse o ikjley yks<k ds edku dks 'kkfey djrs gq, vkse th Vsyj ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es c<dj iwoZ dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, euksgj nsoh nks"kh ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k fn'kk dh vksj c<rs gq, cSd vkWQ cMksnk ds lkeus fLFkr ckcw xqtZj ds edku dks 'kkfey gq, ogkW ls iwoZ es eqMdj pkeq.Mk ekrk pkSd dks yrsr gq, vxrs c<dj fd'kuyky xqtZj ds edku dks 'kkfey djrs gq, mÙkj fn'kk es eqMdj vxrs pydj czgk~dqekjh vkJe ls igys okyh lMd ls iwoZ fn'kk es eqMdj mÙkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, teukyky Vsyj] txikyflag ;kno ds edku] ukdksMk uxj] usg: uxj] gk-cksMZ] ikoZrh xkMZu ds vklikl dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, Lusfgy Hkou vkfn dks 'kkfey djrs gq, e/kqou 'kkafr dqat rd igqapdj mÙkj dh vksj pyrs gq, mifuns'kd d'f"k dk;kZy; dh fnokj ds lgkjs&lgkjs pydj dkuZj rd igaqpdj if'pe dh vksj eqMdj nhokj ds lgkjs&lgkjs pydj iqu% e.Mh dh vksj eqMdj nhokj o mlds chp dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ;g {kS= okMZ ua-31 dgyk;sxA ftles tux.kuk CykWd la[;k 78@1] 79] 80@1] 84 lfEefyr gSA
32	32	pkeVh [ksMk jksM ij fLFkr fHkf'r;ks dh >ksifM;k ds mÙkj ihohZ dkssus ij 'kkSdr gqlsu ds edku ls izkajHk gksdj if'pe es pydj fHkf'r;ks dh >ksifM;k dks 'kkfey djrs gq, vk;Z dU;k xq:dqy dh mÙkj fnokj ds lgkjs&lgkjs pydj xq:dqy dks 'kkfey djrs gq, jsYo ykbZu rd igqapdj nf{k.k fn'kk es eqMdj jsYos ykbZu ds lgkjs&lgkjs pydj iwoZ dh vkcknh dks yrsr gq, ifj"kn lhek rd igqapdj iwoZ es eqMdj pyrs gq, ;kek izlkn eq[kthZ uxj pkeVh [ksMk xkao dh lEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, xaaHkhjh unh ds if'pe Nksj rd igqapdj mÙkj fn'kk dh vksj eqMdj vxrs pyrs gq, if'pe dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, iqu% fHk'rh [ksMk igqapdj

		'kkSdr gqISu ds edku rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 32 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd la[;k 91] 93] 95 lEefyr gSA
33	33	izrki ikdZ jksM ij ?kwej xkMZUk ds ikl fLFkr iqfy;k ds nf{k.k if'pe dksus ls izkajHk gksdj izrki lsrq jksM ds lgkjs&lgkjs pydj nf{k.k dh vkcknh dks yssrs gq, fizal vkWVks] xksfoUn 'kekZ ds edku dks 'kkfey djrs gq, ihMCyWmH ds DokVZj rd igqapdj izrki iSysl gksVy rd igqapdj jsYos ykbzu ds lgkjs&lgkjs pydj [kesljk uxj] ipaeq[kh vLirky] eh.kk ikMk ihMCyWmH DokVZj vkfn dks 'kkfey djrs gq, egf"KZ n;kuUn vk;Z xq:dqy rd igqapdj vk;Z xq:dqy dh vk/kh fnokj ds lgkjs&lgkjs iwoZ es pydj fj}h fl}h uxj ds ukys rd igqapdj] dSyk'k uxj] fouk;d uxj] fnokdj uxj vkfn dks 'kkfey djrs gq, fHk'fr;ks dh >ksifM;ks ls igys iwoZ es eqMdj mÜkj dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, lMd ikj djrs gq, xaHkhjh unh ds rV rd igqapdj mÜkj fh'kk dh vksj eqMdj d".kk uxj] f'kokfyd fogkj] g"KZ uxj vkfn dh leLr vkcknh dks ysrs gq, egkjk.kk izrki lsrq ekxZ ij igqapdj iqu% if'pe fh'kk dh vksj eqMdj ,D'ku 'kkS:e] >kSyk 'kks&.e bR;kfn dks 'kkfey djrs gq, iqu% iqfy;k rd igqapdj okMZ ua- 33 dgyk;sxkA ftles tux.kuk ds CykWd ua- 90] 92] 94 lEefyr gSA
34	34	?kfV;koyh jksM ch,l,u,y pkSjkgs ls iwoZ dh rjQ ljl Ms;jh ds lkeus ls izkajHk gksdj nf{k.k dh vkcknh lqHkk"K dksyksuh dks 'kkfey djrs gq, Øksl dj nf{k.k es pyrs gq, if'pe dh vkcknh fo;/k fudsru Ldwy dks lEefyr djrs gq, nf{k.k es ou foHkkx dh ckm.Mh ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, if'pe es Hkhyks dh >ksifM;k dks lEefyr djrs gq, uxj ifj"kn dh lhek rd igqapdj if'pe dh vksj eqMdj ?kfV;koyh jksM dks Øksl dj if'pe es pyrs gq, mÜkj dh vkcknh jkejghe uxj dks lEefyr djrs gq, if'pe es pyrs gq, unh ds fdukjs ij igaqp mÜkj es eqMdj unh ds fdukjs ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, iwoZ dh vkcknh Hkhyk dh >ksifM;k dks 'kkfey djrs gq, iwoZ es eqMdj ikB~; iqLrd Hk.Mkj dks 'kkfey dj ';keyky 'kekZ ds edku dks 'kkfey dj ?kfV;koyh jksM dks Øksl dj mÜkj dh vksj pyrs gq, ch,l,u,y pkSjkgs ij fLFkr ljl Ms;jh rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 34 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 108] 109@1] 109@2] 115] 116 dk lEiw.kZ {kS= lEefyr gSA
35	35	ch,l,u,y pkSjkgs ij fLFkr ljl Ms;jh cwFk ls izkajHk gksdj jksM ds lgkjs&lgkjs iwoZ dh fh'kk es pyrs gq, vkseizdk'k ohjoky ds edku dks 'kkfey djrs gq, mÜkj dh vksj eqMdj if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, xkSre vkJe dks ysrs gq, mÜkj dh vksj pyrs gq, [;kyhyky 'kekZ] fo'kky vdkneh Ldwy] jes'kpUnz tkxsFV;k ds edku rd igqapdj if'pe dh vksj eqMdj iwoZ ik"KZn uanyky [kVhd ds edku dks ysrs gq, nf{k.k dh vksj eqMdj nf{k.k es pyrs gq, dUgS;kyky ds edku dks ysrs

		gq, jksM Øksl dj izHkwyky pkaoyk ds edku rd igaqpdj if'pe dh vksj eqMdj leFkZ vkbZVhvkBZ rd igqapdj vkbZVhvkBZ dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj jkts'k d.Mkj ds edku dks ysrs gq, ch,l,u,y pkSjkgs ij fLFkr ljl Ms;jh rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 35 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 112] 113] 114 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
36	36	;wvkbZVh ds nf{k.k es fLFkr U;k;k/kh'k vkokl ls izkjEHk gksdj os".ko fo/kk eafnj dks ysrs gq, dWkuZj ij fjDr Hkw[k.M dks ysrs gq, nf{k.k dh vksj eqMdj ?kfV;koyh jksM ij pyrs gq, txnh'k 'kekZ] mi iz/kku] nkeksnnyky Jhekyh ds edku rd igqapdj vkxs py dj if'pe es eqMdj d`.kk Vsyj ds edku rd igqap dj edku dks 'kkfey djrs gq, jksM ds lgkjs&lgkjs nf{k.k fn'kk es pyrs gq, ikdZ dks ysrs gq, tkudhjke [kVhd ds edku dks ysrs gq, if'pe dh IEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey dj if'pe es eqMdj gkbZVsd fdpu] eq[;ea=h tuvkokl ;kstuk vkfn dks ysrs gq, unh ds fdukjs igqap dj unh ds fdukjs ds lgkjs lgkjs mrj dh vksj pyrs gq, iEi gkml] esokM xYZ dkWyst] ch,l,u,y vkWfQl] Hkxorflag dksyksuh dks ysrs gq, Hkxrflag ikdZ ls nf{k.k es eqMdj nf{k.k es pyrs gq, iqu% U;k;k/kh'k vkokl rd dk {kS= okMZ ua- 36 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 105] 106@2] 107@1] 107@2 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
37	37	Hkxrflag ikdZ ds iwoZ fn'kk es fLFkr lkeqnf;d Hkou ls nf{k.k fn'kk es jksM ds lgkjs lgkjs pyrs gq, ;wvkbZVh vkWfQl igqapdj ,oa iwoZ fn'kk es eqMrs gq, cnzhyky 'kekZ ds edku dks yssrs gq, dksus ij fjDr Hkw[k.M ls mÜkj fn'kk dh vksj eqMrs gq, iqfyl pkSdh rd igqapdj jksM Øksl dj fMLislajh dks 'kkfey djrs gq, iwoZ es lh/ks pyrs gq, gkmflax cksMZ ds edku dks ysrs gq, mÜkj dh vksj eqMdj ckcjey eh.kk] cnzhyky pkaoyk ds edku ij igqap ?kj dks ysrs gq, nf{k.k fn'kk es eqMdj rpylh Vs <sup>a</sup> MIZ dks 'kkfey djrs gq, Vsxsj dEl;wVj dks 'kkfey djrs gq, flVh fMLisuljh dks ysrs gq, jksM Øksl dj if'pe fn'kk es eqMdj pyrs gq, lkeqnf;d Hkou rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 37 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 106@1] 110@1] 110@2] 111] 121 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
38	38	vksNMh xsV ds lkeus mÜkj if'peh dkssus ij iwoZ ftyk izeq[k HkS:flag th pkSgkus ds Hkw[k.M dks yssrs gq, nf{k.k dh vksj jksM ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, dSyk'k lksuh] xksiky lksuh ds edku dks yssrs gq, jksM Øksl dj tvk'kadj th xkSM ds edku dks ysrs gq, ';ke xzsukbZV dh nqdku dks ysrs gq, nf{k.k es pyrs gq, ukuqjke th vkesfj;k ds fuekZ.kk/khu edku dks ysrs gq, iwoZ dh fn'kk dh vksj eqMdj jksM ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, dsUnzh; fo?kky; dks ysrs gq, jksM Øksl dj ehjk okfVdk] tkSgj Hkou] gtjr pV~Vku okys ckck dks ysdj vkdk'kok.kh dsUnz] uksgjk

		tSu lekt dks ysrs gq, vkdk'kok.kh dksyksuh] vk;dj dksyksuh ysrs gq, rsyh ikMk dks ysrs gq, ukdksMk tSu eafnj igqapdj if'pe fn'kk dh vksj eqMdj LdkmV xkbZV ,yvkbZlh] izrki Ldwy dks ysrs gq, iqu% iwoZ ftyk izeq[k th HkS:flag th pkSgku ds Hkw[k.M rd ds chp dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 38 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 117] 118@1] 118@2] 119] 120 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
39	39	xka/khuxj eSu jksM ij fLFkr odhy g"kZ dqekj tSu ds edku ls nf{k.k dh vksj pyrs gq, jkedqbZ dks 'kkfey djrs gq, fujatu th U;kfr ds edku ls jksM Øksl dj mejko HkMdR;k ds edku ls nf{k.k dh vksj pyrs gq, cksjfn;k fcYMhax eVsfj;y Hkxoku th rMck ds dkWEiysDI dks lfEefyr djrs gq, izseuxj eSu jksM ij uxj ifj"kn dh nqdkuks dks ysrs gq, iqoZ iz/kku jknwyky th [kVhd ds dkWEiysDI dks ysrs gq, uanyky th [kVhd ds edku rd igqapdj if'pe fn'kk es eqMdj fouksn vtesjk ds edku dks lfEefyr djrs gq, vLFkbbZ iqfyl pkSdh rd igqapdj mÙkj fn'kk dh vksj eqMdj [kfut Hkou dsUnzh; mRikn foHkkx ds Hkou dks ysrs gq, jksM Øksl dj iwoZ dh vksj eqM dj jkeLo:lk oekZ ds edku ls vkxs pyrs gq, jksM Øksl dj bdcky teknkj ds edku dks ysrs gq, mÙkj dh vksj pyrs gq, egs'k okfVdk rd igqapdj if'pe es eqMdj if'pe fn'kk dh vksj pydj eks{k/kke dh fnokj rd igqapdj mÙkj dh vksj pyrs gq, veu vkWVks eksckby ij igqapdj iwoZ dh vksj pydj mÙkj fn'kk es eqMdj vksuk[kk guqeku th eafnj igqapdj iwoZ dh rjQ pydj g"kZ dqekj tSu ds e/; dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 39 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 101@1] 101@2] 102] 104 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
40	40	xka/khuxj fLFkr Lo.kZdkj lekt ds uksgjs ds lkeus fLFkr iq"ik lkyoh ds edku ls mÙkj fn'kk dh vksj pyrs gq, lqyHk 'kkSpky; dks 'kkfey djrs gq, iqjkuk 'kkSpky; ls iwoZ dh vksj eqMdj dknjh eftLn dks 'kkfey djrs gq, xyh ds vafre edku 'kgtkn ds edku ls nf{k.k dh vksj pyrs gq, txnh'k gfjtu ds edku ij igqapdj if'pe dh vksj pyrs gq, iq"lkk lkyoh ds edku rd dh IEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 40 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la[;k 100@1] 100@2] 100@3 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
41	41	xaHkhjh unh dh iqfy;k ds dksus ij fLFky larks"kh ekrk ds eafnj ls izkajHk gksdj iwoZ fn'kk dh vksj pydj vlljk VkWdht rd igqapdj nf{k.k fn'kk dh vksj eqMdj jksM ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, yodq'k dkWEiysDI dks lfEefyr djrs gq, iwoZ fn'kk es eqMdj fjDr Hkw[k.M ,oa pUnzyksd flusek dks ysrs gq, iwoZ fn'kk dh vksj ctjax lfoZI lsaVj dh vksj eqMrs gq, jruyky ukgj ds edku rd igqapdj nf{k.k fn'kk dh vksj eqMrs gq, jkepUnz th vkesfj;k ds edku rd igqapdj if'pe fn'kk dh vksj eqMdj vatweu enjlk dks 'kkfey dj nf{k.k es eqMdj



		dsUnzh; mRiku foHkx ds lkeus dPph cLrh dks 'kkfey djrs gq, dknjh enjlk okyh xyh es eqMdj if'pe es pyrs gq, iliw HkkbZ ds edku rd igqapdj jksM Øksl dj xaHkhjh unh rd igqapdj unh ds fdukjs ij mUkj dh vksj pyrs gq, [kjm;k egkns o igqpdj xaHkhjh unh ds fdukjs&fdukjs mUkj es pyrs gq, 'kadj ?kV~Vk pkjHkqtk uxj iSV <sup>a</sup> ksy iEi dks yrs gq, iqu% xaHkhjh unh ds fdukjs ij larks"kh ekrk ds eafnj dh vkcknh okMZ ua- 41 dgyk;sxx] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 97] 99@2] 103] 99@1] 98 dk IEiw.kZ {kS= lfEefyr gSA
42	42	twuk cktkj ukjk;.k vks>k th ds edku ls izkajHk dj nf{k.k fn'kk es pydj 64 tksxfM;k gksrs gq, mWdkj yky th ds edku dks 'kkfey djrs gq, Qdhjks ds edku HkkaM eksGyYk dks 'kkfey djrs gq, eksGu th 'kkL=h ds edku ds vklikl dh xfy;ks dks yrs gq, iwoZ fn'kk es pyrs eksGEn lyhe ds edku fct;iqj gosyh ls vkxs pydj xqtZ] ckW ds edku rd y[kkjh ?kkVh] rMck th] /keZ'k Hkkjrh] U;kfr;ks dk eksGyYk] y[kkjh ?kkVh dh IEiw.kZ vkcknh dks yrs gq, ewanMk th dk vkJe ls iwoZ dh fn'kk es pydj cQZ QSDV <sup>a</sup> h eksGuhckbZ ulZ dk edku ukjk;.k th dikm.Mj ds vklikl dh vkcknh uxjikfydk dk DokVZ] ls Hkke'kkg Hkkjrh Ldwy ls mUkj dh fn'kk es >juk o eksGuhckbZ ds ckMs rd vkxs if'pe es fnokj Øksl dj lbZn HkkbZ MkbZoj] mn;flag th dk edku cksgjks dh eftLn o uxjikfydk dk iqjkuk Hkou rd dh IEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ikMuiksy ls if'pe fn'kk es ykyeB] lq[kokyks dk uksgjk] NU;kr dk uksgjk] twuk cktkj es pyrs gq, iVokjh lk-dk edku] fnxEcj eafnj gksrs gq, ykynkl dh xqokMh dh IEiw.kZ vkcknh dks lfEefyr djrs gq, ukjk;.k th vks>k ds edku rd dk okMZ ua- 42 dgyk;sxx] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 126@1] 126@2] 128] 136 lfEefyr gSA
43	43	jkeiksy ls 'kq: gksdj nf{k.k es eqMdj fdys dh fnokj ds lgkjs&lgkjs iwoZ dh vkcknh] jke eafnj] rgyNk ekrk eafnj] uksy[kk Hk.Mkj] dqEHk egy] fot; LrEHk] ehjk eafnj] xksew[k gksrs tSu eafnj dh iwohZ lhek ds lgkjs&lgkjs ekrk th ds eafnj] in~euh egy] uhyd.B egkns o dks yrs gq, e`xou ifj"kn lhek ds lgkjs&lgkjs if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, fdrhZ LrEHk] tSu eafnj] lwjtiksy ls pkjHkqtk eafnj gksrs gq, yk[kksVk ckMh] ifj"kn lhek rd igaqp nf{k.k es eqMdj jRus'oj rkykc] dwdMs'oj dq.M] o`kJe dks 'kkfey djrs gq, lh/ks jkeiksy rd ds chp dh vkcknh okMZ ua- 47 dgyk;sxx] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 123] 124@1] 124@2] 125 lfEefyr gSA
44	44	ikMuiksy vkn'kZ Ldwy ls 'kq: gksdj lksjxjks ds uhe igqapdj [kqekuiqjh th ds dw, ds lkeus vkse th yqgkj ds edku dks yrs gq, jksM Øksl dj eqjyh/kj if.Mr ls iwoZ dh fn'kk es eqMrs gq, eksGuflag th >kyk ds edku rd o iqu% uhps

		<p>mrj dj txnh'k lksuh ds edku ds mÜkj dh fn'kk es eqMrs gq, gfjizlkn th frokjh ds edku dks yrsrs gq, xMksy;k ds edku ls mij gkFkh HkkVk ds jkLrs if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, dkcjk xyh] iwj.key gfjtu ds edku dks 'kkfey djrs gq, gfjtu cLrh] okpuky; ds lkeus vkcknh dks yrsrs gq, ykyw Hkhy ds edku dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k fn'kk es pydj vks&gt;k th ds edku dks 'kkfey djrs gq, eafnj ds lkeus ukFkwyky th vxzoky ds edku ls ckcwyky th tktw ds edku ls uhps mÜkj dh fn'kk es ?kwers gq, [kkvj egy dks yrsrs gq, ukjk;.k cYnok dh nqdku ls nf{k.k dh fn'kk es pyrs gq, feBkbZ cktkj ls y{ehukjk;.k eafnj] /kksch eksqYyk] 'ks[k eksqYyk ds edku dks 'kkfey djrs gq, fy;kdr vyh ds edku ls vk;qoZsfnd fpdfRlky; dh lEiw.kZ vkcknh yrsrs gq, iqu% ikMuiksy vkn'kZ Ldwy rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 44 dgyk;sxk] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 129] 154] 155] 157 lfEefyr gSA</p>
45	45	<p>Inj cktkj eq[; lMd ds if'pe es pydj xfm;k egknso th ls izkajHk gksdj if'pe fn'kk pksiMk th dh nqdku ls /kUukyky xqtZj dh nqdku dks yrsrs gq, ekgs'ojh Hkkstuky; ds dksus rd igqapdj nf{k.k es eqMdj Hkkstuky; dks lfEefyr djrs gq, iqu% iwoZ es eqMdj jk/kkd`".k eafnj ds ihNs dh vkcknh /kUukyky xqtZj tk;loky cnzhpUn eksph ds fiNokMs dh lhek dks yrsrs gq, [kVhd eksqYys gksrs gq, Jh ca'khyky pkaoyk ds edku ls jksM Øksl dj uanyky th iwoZ ik"kn ds edku ls iwoZ fn'kk es eqMdj bebeckMk eksqYyk dqekor eksqYyk vkfn vkcknh dks lfEefyr dj twuk cktkj es lsfB;k Hkou] rjkorks dh xyh o twuk cktkj es xksiky th iVok ds edku dks 'kkfey djrs gq, feBkbZ ekdsZV es pyrs gq, racksyh xyh edkuks dks 'kkfey dj vkxky Hkou ls vkxs feBkbZ ekdsZV gksrs gq, xksnq HkkbZ iksgs okys ds ;gkW gksrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj vxzoky QksVks LVwfM;ks ds ikl dh xyh es lqjk.kk eksqYyk] Vdlky iVokjh eksqYyk] cnzhukFk eafnj] pkjHkqtk eafnj] Lo- yknwyky th ps;jesu lk- ds edku o [kkdy nso th ds eafnj dks 'kkfey djrs gq, Lo- Jh i`Fohjkt th uedhu okys rd dh lEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, Inj cktkj dks yrsrs gq, lqn'kZu fe"Bku Hk.Mkj] izgykn th lksuh dh nqdku gksrs gq, xfm;k egknso th rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 45 dgyk;sxk] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 131] 134] 135] 138 lfEefyr gSA</p>
46	46	<p>lqHkk"k pkSd fLFkr fgUnqLrku LiksvZI dh iqjkuh nqdku ls izkajHk gksdj if'pe es pyrs gq, nf{k.k dh vkcknh dks yrsrs gq, gksVy Lokxr ds dksus rd igqapdj nf{k.k es eqMdj jkes'oj xsLV gkml rd igqapdj iqu% iwoZ fn'kk es eqMdj fdyk jksM igqapdj mÜkj dh leLr vkcknh dks yrsrs gq, t;ij xksYMu dks 'kkfey djrs gq, 10 ua- vkWfQI dks yrsrs gq, iqfyl pkSdh dks yrsrs gq, mÜkj es eqMdj yrhQ lk- ds</p>

		edku dks yssrs gq, 64 tksxfM;k eafnj dks yssrs gq, Lkqjs'k 'kekZ ds edku dks 'kkfey djrs gq, twuk cktkj dh xyh es igqpdj lMd Øksl dj iapk;rh uksgjk] [kVhd lekt uksgjs dks yssrs gq, vkuUnhjke [kVhd ds edku dks yssrs gq, nksuks rjQ dh vkcknh dks yssrs gq, jk/kkLokhe eafnj rd igqapdj vklikl dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, xksy l;km pkSjkgk igqapdj if'pe fn'kk es njxkg dks 'kkfey djrs gq, xksihHkkV dh nqdku gksrs gq, iqu% fgUnqLrku LiksvZI dh iqjkuh nqdku dk {kS= okMZ ua- 46 dgyk;sxk] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 96] 139@1] 139@2] 140] 141] 143 lEefyr gSA
47	47	Inj cktkj fLFkr jkedj.k nsoiqjk ds edku ls izkajHk gksdj mÜkj fn'kk es eqMdj pwaMh cktkj dh xyh ls gksrs gq, nhid oL= Hk.Mkj dks yssrs gq, uhyxjks dh eftLn ds vklikl dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, cykbZ;ks dh dqbZ ds vklikl dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, Hkksykjke iztkir ds edku dh iwjh ykbZu dks 'kkfey dj fcNkoV ds ihNs fLFkr edkukr dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k fn'kk dh vkcknh dks 'kkfey dj cykb;ks dh dqbZ dks yssrs gq, cjdr lk- ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es vkxs c<dj lCth e.Mh jksM ij igqapdj mÜkj fn'kk es eqMdj vkxs pydj lCth e.Mh dks 'kkfey dj if'pe fn'kk es eqMdj xksjkckny LVsfM;e] U;w DykWfK ekdsZV dh vkcknh dks yssrs gq, lh/kk egkohj dksyksuh igqapdj ik"kZn uohu iVokjh ds edku dks 'kkfey dj fcpyk xsyk guqeku eafnj ds jkLrs ls unh fdukjs igqapdj nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, unh ds fdukjs nf{k.k es eqMdj vfHkeU;q ikdZ dks 'kkfey djrs gq, iqu% if'pe fn'kk es eqMdj uoky ljk;] dsUnzh; lgdkjh cSd] usg: cktkj] xksy l;kÅ pkSjkgs] Inj cktkj igqapdj HkkxhjFk eksph ds dkWEiysDI dh rjQ iwjh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jkedj.k nsoiqjk ds edku dk lEiw.kZ {kS= okMZ ua- 47 dgyk;sxk] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 146] 147] 148] 150] 151@2 lEefyr gSA

48	48	Jh lR;ukjk;.k eafnj <wapk cktkj ls izkajHk gksdj mÜkj fn'kk es pyrs gq, Hkxokuyky th lksuh ds edku o lR;ukjk;.k th e.Mksojk ds edku rd igqapdj lEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj jkeizrki th rks"kuhoky dh xqokMh dks 'kkfey djrs gq, fnus'k th Hk.Mkj ds edku ls vkxs lhrkjke th oS".ko ds edku igqapdj iqu% nf{k.k es eqMdj fgUnw Nhik eksGyYk ykSgkj eksGyYk dh lEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ykSgkjks dh eftLn ds lkeus dk Hkx ls pydj jaxjst pkpk th dh nqdku ls jksM Øksl dj iqjkuh lCth e.Mh dh nqdkuks dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es eqMdj rks"kuhokyks dh ckoMh] lhrkjke th dh pDdh dks yssrs gq, Inj cktkj rd igqapdj iwoZ U;kfr th dh nqdku dks 'kkfey djrs gq, vkcknh dks 'kkfey dj Inj cktkj ls [kkdy nso th dh xyh ls nf{k.k es eqMdj 'kksHkkyky th rsyh ds edku dkcjk xyh ds mÜkj dh
----	----	--

		<p>vkcknh dks 'kkfey dj cnzhukFk eafnj ds lkeus igqap iwoZ es eqMdj vkcknh es Jh ?ku';ke dya=h] lqjk.kk dq.M rd racksyh xyh rd mUkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, vkpkjrks ds uhe rd igqap mUkj es eqMdj feBkbZ xyh es if'pe dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, pkScs th dh xyh ls lksek.kh xyh gksrs gq, iqu% if'pe fn'kk es eqMdj Inj cktkj lksuh th dh nqdku ls jksM Øksl dj &lt;awpk cktkj gksrs gq, iwoZ ik"kZn txnh'k lksuh dh nqdku dks lfEefyr djrs gq, :iukjk;.k eafnj igqap dj vkcknh dks 'kkfey dj ;g lEiw.kZ {kS= dh okMZ ua- 48 dgyk;sxx] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 137] 144] 152 lfEefyr gSA</p>
49	49	<p>pUnuiqjk es nhid frokjh ds edku ls iwoZ dh fn'kk ls izkajHk gksdj NktsM Hkou y&lt;&lt;k Hkou dks lfEefyr djrs gq, yky th iksjoky ds edku ls pyrs gq, pspk.kh Hkou ls mUkj dh fn'kk es ckiw dksyksuh es jkep.j.k gfjtu ds edku dks yrsrs gq, ckiw okpuky; rd igqapdj iwoZ es eqMdj ca'khyky ?kk: ds edku dks lfEefyr dj Hkaoj@Mkypan ds edku rd igqapdj nf{k.k es eqMdj gkFkh HkkVk Hkhyks dh cLrh] iwoZ dh vkcknh dks yrsrs gq, lqyHk dkWEiysDI lfEefyr dj iwoZ es fdys dh fnokj ds lgkjs&amp;lgkjs if'pe dh vkcknh dks yrsrs gq, iqu% jkep.j.k ds edku dh lh/k es vkdj nf{k.k fn'kk es eqMdj IR;ukjk;.k p.Md ds edku dks 'kkfey djrs gq, eksguyky ds edku fiatkjk dk pkSd dks yrsrs gq, xkSyd dh dpgjh Hkh vkcknh es lfEefyr djrs gq, xka/kh pkSd igqapdj diMk cktkj pkaney ek: dh nqdku ls 'kq: gksdj mUkj es iVok dh nqdku dks 'kkfey djrs gq, xqanhikMk es eqMdj] Hk.MkjH o lsafB;k cktkj dks lfEefyr djrs gq, Inj cktkj gksrs gq, rks"kuhokyks dh nqdku ls mUkj fn'kk es eqMrs gq, Hk.MkjH lk- dh nqdku] fouksn ljcoxh dh nqdku dks lfEefyr djrs gq, calrh yky iks[kjuk ds edku dh xyh dks lfEefyr djrs gq, iks[kjuk ds edku ls egkRek th ds nok[kkuk rd igqap nhid frokjh ds edku rd dh lEiw.kZ vkcknh dks okMZ ua- 49 dgyk;sxx] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 129] 134] 155] 137 lfEefyr gSA</p>

50	50	<p>pspk.kh Hkou ds lkeus ls 'kq: gksdj mÜkj es pydj gfjtu cLrh es jkeiky yksB] jes'kpUn Vkad ds edku dks 'kkfey djrs gq, mij dh eftLn igqapdj gfjtu cLrh dks 'kkfey djrs gq, uhps dh vksj ?kkVh mrjrs gq, xqxjsokys ds edku dks 'kkfey djrs gq, iwoZ ik"kZn eks- vyh ds edku [k.Ms okyh gosyh gkth ljk; dks 'kkfey djrs gq, v'kjQh pkSd dks 'kkfey djrs gq, uhps mÜkj fn'kk es eqMdj nsgyhsV ij vkdj jksM ds lgkjs&amp;lgkjs if'pe fn'kk es pydj ehjk eap ds lkeus ls iqu% nf{k.k fn'kk es eqMdj lh/ks pyrs gq, lksguyky nkf/kp ds edku dks 'kkfey djrs gq, n'kksjk fcYMhax ds ikL okys jkLrs ls gksrs gq, ckgsfr;ks dh xyh es igqapdj iqu% iwoZ fn'kk es eqMdj mÜkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, iqu% lMd ds lkFk lkFk mÜkj fn'kk es dhfrZ &lt;hyhoky vkfn ds edkukr dks 'kkfey djrs gq, pUnuiqjk igqapdj nhid frokjh ds edku ds lkeus ls iwoZ fn'kk dh rjQ eqMdj mÜkj dh vkcknh Hkxorhyky &lt;hyhoky ds edku lfgr mÜkj dh Nhik eksGyk dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jkds'k ekyw ds edku dks ysrs gq, pspk.kh Hkou ds lkeus igqapdj okMZ ua- 50 dgyk;sxk] bles tux.kuk ds CykWd la[;k 156] 159] 160@2 lfEefyr gSA</p>
51	51	<p>fcNkoV ds if'pe fn'kk ds jkLrs ds dksus ls izkajHk gksdj cwanh jksM ij mÜkj fn'kk es pyrs gq, egknso th dk eafnj lkbZckck ds eafnj dks ysrs gq, ikoVk pkSd dks ysrs gq, Hkaojyky yh rsyh ds Hkw[k.M dks ysrs gq, cwanh jksM ds iwoZ fn'kk es pyrs gq, dUgS;kyky th] threy dqekor ds edku dks ysrs gq, enuyky dqekor th dh nqdku dks ysrs gq, ehjkeap ds lkeus nf{k.k fn'kk es eqMdj vkxs pyrs gq, Hkxorhyky dqekor] lksguyky isaVj ds edku dks ysdj MkM Hkou ysrs gq, [kwcpUn dqekor ds edku dks ysdj cnzhyky dqekor dk edku dks ysdj tkudhyky Hk.Mkjh ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe es eqMdj ca'khyky pDdh okys ds edku dks ysrs gq, jksM Øksl dj egkohj nkl ds edku dks ysrs gq, nf{k.k es pyrs gq, eqckfjd fuyxj ds edku dks ysrs gq, tscqfu'kk xksjh ds vkxs okys edku dks ysrs gq, fcNkoV ds if'pe jkLrs rd dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 51 dgyk;sxhA bles tux.kuk ds CykWd la[;k 151@1] 153] 1610@1] 158 lfEefyr gSA</p>
52	52	<p>ewanMk th dh cxhph fLFkr cky Qqyokjh Ldwy ds lkeus ls izkajHk gksdj nf{k.k fn'kk dh vksj pyrs gq, nf{k.k iwoZ dh leLr vkcknh dks ysrs gq, iqu% cwanh jksM fLFkr pkSjgks ij igqap dj iwoZ fn'kk dh vksj eqMdj cwanh jksM ds lgkjs&amp;lgkjs lkyoh lnu ehjk eap vkfn dks 'kkfey djrs gq, nsgyh xsV ls nf{k.k fn'kk dh vksj eqMdj vkVv pDdh dks ysrs gq, ?kk.kh ds lkeus okyh xyh es jkeizlkn cykbZ ds edku dks 'kkfey dj mÜkj dh vkcknh dks ysrs gq, lehj [kka th ds edku dks 'kkfey djrs gq, uhps dh eftLn ds ihsNs eksGEn lkgc ds edku dks ysrs gq, iwoZ es eqMdj uwj 'kkWg ds edku dks 'kkfey dj ou foHkkx dh lhek rd igqapdj iqu% mÜkj fn'kk esa eqM+dj if'pe fn'kk dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs</p>

		gq, xqtZjcLrh [kkdh th dh dqbz Hkhyks dh edkuksa dks 'kkfey djrs gq, dfczLrku vkfn dks 'kkfey djrs gq, ekuiqjk jksM guqeku eafnj rd igqapdj nf{k.k esa eqMdj jksM ds lgkjs lgkjs dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, uxj ifj"kn dk iqjkuk pqaxh ukdk jke}kjk IEiw.kZ gler dksyksuh dks 'kkfey djrs gq, ehjk eap ds ihNs fLFkr Hkaxkj xksnke ds lkeus okyh ykbu dks yrsrs gq, iqu% ckyQqyokjh Ldwy ds lkeus rd okMZ ua- 52 dgyk;sxkA ftles tux.kuk CykWd ua- 162@2] 163 164 vkSj 165 lfEefyr gSA
53	53	ekuiqjk pkSjkgs ls lkeus if'pe fn'kk ds dksus ij guqeku eafnj ls çkjaHk gksdj cwanh jksM ij xqanh okys ckck dh njxkg ls pydj jkeuxj ekyh eksGyk laEiw.kZ uksMksfy;k cLrh dks lfEefyr djrs gq, 'kfä QuÊpj vkf'kdk QuÊpj ls vkpk;Z Jh jerkje th egkjt o Jh jes'k th bZukuh ds [ksr ds vklikl dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, Jh çseizdk'k th eawnMk] çeksn th 'käkor] js[kk th 'kDrkor ds edku o ewanMk th dh cxhph dks 'kkfey djrs gq, o/kZeku uxj] U;w o/kZeku uxj] vk;ks;/kiqjh dh laiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, gtkjs'oj egknso ds frjkg pydj T;ksfr ckW Qwys dh ewfrZ ds lkeus dh vkcknh Jh fouksn th ljcoxh dh nqdku dkfydk cktkj] ghjk okVhdk] v'kksd uxj dh IEiw.kZ vkcknh dks 'kkfey djrs gq, ukbZ;ks ds uksgjs ls guqeku eafnj xaHkhjh unh ds rV igqapdj iqu% mÜkj fn'kk es pydj gtkjs'oj egknso ds vklikl dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, xaHkhjh unh ds fdukjs gksrs gq, iqu% ekuiqjk pksjkgs igqapdj okMZ ua- 53 dgyk;sxkA ftles tux.kuk ds CYkkWd ua- 149] 161] 162@1 lfEefyr gSA
54	54	HkhyokMk jksM ij fLFkr iSV <sup>a</sup> ksy iEi ds nf{k.k es pyrs gq, ukjksfVDI dk;kZy; dks 'kkfey djrs gq, mlds dksus ls iwoZ es pyrs gq, f'koyksd dkWyksuh ds ikdZ dks 'kkfey djrs gq, f'koyksd dksyksuh] vk'kkiqjk dksyksuh dks 'kkfey djrs gq, lqHkk"q dqekor ds edku dks 'kkfey djrs gq, laxe jksM Øksl djrs gq, xaHkhjhunh ds lgkjs ij igaqp dj unh ds lgkjs&lgkjs mÜkj dh vksj eqMdj dwdMk jsftMsulh dks 'kkfey djrs gq, laxe ekxZ ij mÜkj dh vksj pyrs gq, if'pe es laxe ekxZ dh IMd rd igqapdj jksM Øksl djrs gq, if'pe dh rjQ pyrs gq, jksM Øksl dj dhj[ksMk jkssM ds nf{k.k dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, if'pe es vksj c<rs gq, feB~Bwyky f=ikBh ds edku rd igqapdj mÜkj dh rjQ eqMdj jkds'k cMkyk ds edku rd igqapdj edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe es eqMdj rkyscj lkgw ds edku ls mÜkj es eqMdj vfuy dqekj xkSM ds edku dks 'kkfey djrs gq, buds ihNs dh IMd ls if'pe es eqMdj ch-ds- vks>k ds edku ls mÜkj es eqMdj if'pe dh vkcknh yrsrs gq, ;keth dhj ds edku rd igqapdj if'pe es eqMdj eqjkjh yky ds edku dks 'kkfey dj /kesZUnz pkS/kjh ds edku dks 'kkfey djrs gq, frjkg ls nf{k.k fn'kk es eqMdj HkhyokMk jksM ds lgkjs&lgkjs pydj 'kdqUr lsusVjh 'kks:edks 'kkfey djrs gq, iSV <sup>a</sup> ksy iEi rd igqapdj mldh leLr vkcknh okMZ ua- 54 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la- 28] 29@1] 29@2] 171

		lfEefyr gSA
55	55	dhj [ksMk ekrkth ds pkSd ls jk/kkd`".k eafnj ds ikl HkS: th dhj ds edku ls izkajHk gksdj if'pe es pydj mÙkj dh vkcknh dks yrsr gq, fnyhi th pkSgku ds edku dks 'kkfey djrs gq, pEikyky th dhj ds edku rd igqapdj [ksrks es cuh ixM.Mh ds lgkjs&lgkjs pydj ';ke th dhj ds lkeus okyh lMd ij igqp nf{k.k es eqMdj iwoZ dh vkcknh dks yrsr gq, uojru th Hk.Mkjh ds edku rd igqap lMd Øksl dj fnus'k osnh ds edku dks 'kkfey djrs gq, ikdZ dh fnoky ds lgkjs&lgkjs iwoZ es eqMdj ijedkUr th ds edku ls nf{k.k es eqMdj iwoZ dh vkcknh dks yrsr gq, dhj [ksMk eq[; lMd ij igqap iwoZ es eqMdj mÙkj dh vkcknh dks yrsr gq, pkSjkgs igqapdj 'kadj yky lksuh ds edku rd igqapdj mÙkj es eqMdj HkhyokMk jksM ij igaqpdj if'pe dh vksj pyrs gq, iqfy;k Øksl dj csMp unh ds fdukjs ij nf{k.k esa unh ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, jsYos dh iqfy;k rd igqap dj if'pe esa jsYos ykbZu o uxj ifj"kn dh lhek ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, mÙkj esa eqMdj jsYos ykbZu o uxj ifj"kn dh lhek ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, cksfn;kuk ukyk rd igqp dj lSfud Ldwy dks 'kkfey djrs gq, cksfn;kuk ukys ls iwoZ esa eqMdj ukys ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, iwoZ es unh ds fdukjs rd igqapdj unh ds fdukjs fdukjs nf{k.k es eqMdj nf{k.k es pyrs gq, unh Øksldjrs gq, iwoZ es pyrs gq, egsUnz prqosZnh ds edku dks yrsr gq, nf{k.k es eqMrs gq, lqjs'k 'kekZ ds edku dks yrsr gq, iwoZ es eqMdj Hkxrjke ds edku dks yrsr gq, nf{k.k es eqMdj jk/kkfd'ku th ds eafnj rd dh vkcknh okMZ ua- 55 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd la;k 170] 172@1] 172@2] 173@2] 24@2] 25 lfEefyr gSA

56	56	dhj [ksMk ukMh ls iwoZ es pyrs gq, nf{k.k es eqMdj iqu% iwoZ es eqMdj unh ds fdukjs ij igqapdj fdukjs ds lgkjs&lgkjs mÙkj es pyrs gq, .Ms'oj egknso dks yrsr gq, unh ds fdukjs fdukjs mÙkj es pyrs gq, laxe ij igqap laxe egknso dks yrsr gq, nf{k.k es eqMrs gq, okVj V <sup>ah</sup> VesaV lykaV ds lkeus jksM ij pyrs g,q iFkokjh dk pkSjkjk yrsr gq, ekdssZV dks yrsr gq, nf{k.k es pyrs gq, mn;jke dhj ds edku dks yrsr gq, jksM Øksl dj fo?kky; ds mÙkj ihohZ dksus ij igqapdj Ldwy ds mÙkj if'peh dksus ij igqap dj nf{k.k es eqMdj pyrs gq, gMekyk dPPkh cLrh ds dksus ij igqap dj if'pe es py dj unh ds lgkjs&lgkjs nf{k.k es pyrs gq, egsUnz prqosZnh ds edku rd igqap dj dPps jkLrs pyrs gq, lhesaV jksM ij nf{k.k es pyrs gq, xzkeh.k gkV dh ckm.Mh ls iwoZ es pyrs gq, laxe jksM ij igqap dj gkVctkj dh nf{k.k ihohZ dksusdks yrsr gq, if'pe es pyrs gq, fo?kky; ds mÙkj if'peh dksus ij igqap dj nf{k.k es pyrs gq, dhj [ksMk ukMh rd dk lEiw.kZ {kS= okMZ ua0 56 dgyk;sxA ftles tux.kuk ds CykWd la;k 166] 168@1] 169 lfEefyr gSA
----	----	--

57	57	HkksbZ [ksMk Ldwy ds lkeus 'kadjyky HkksbZ ds edku ls
----	----	---

		izkajHk gksdj mÙkj es pyrs gq, :iky ds edku dks ysrs gq, if'pe dh vkcnh dks 'kkfey djrs gq, iFkokfj;ks ds pkSd rd igqap okVj V <sup>h</sup> VesaV lykaV dks ysrs gq, laxe jksM ij igqap if'pe es eqMdj csMp unh ds lgkjs lgkjs nf{k.k es pyrs gq, gMekyk dPph cLrh dks ysrs gq, mÙkj es eqMdj jksM ij pyrs gq, Ldwy ds dksus ij igqap cznhyky HkksbZ ds edku dks ysrs gq, 'kadjyky HkksbZ ds edku ds chp dh lEiw.kZ vkcknh okMZ ua- 57 dgyk;sxhA ftles tux.kuk ds CykWd ua- 167@1] 167@2] 168@2 lEefyr gSA
--	--	--

58	58	HkhyokMk jksM fLFkr fprkSM QSDV <sup>ah</sup> ds eq[; }kj ls izkajHk gksdj HkhyokMk jksM ds lgkjs lgkjs nf{k.k es pyrs gq, fcjyk f'k{k dsUnz LVkQ dksyksuh dks 'kkfey dj dksyksuh ds nf{k.k if'pe dksus ij igqapdj iwoZ fn'kk es eqMdj mÙkj dh vkcknh dks ysrs gq, gkWLvy dks 'kkfey djrs gq, fnokj ds lgkjs&lgkjs iwoZ fn'kk es pyrs gq, mÙkj dh leLr vkcknh gehjokf;k th dk edku leLr yscj dksyksuh dh vkcknh dks ysrs gq, ckck ?kkV gokbZ iV~Vh fnokj ds lgkjs&lgkjs xaHkhjh unh rd igqapdj xaHkhjh unh ds fdukjs fdukjs mÙkj fn'kk dh rjQ eqMdj mÙkj fn'kk es vkxs pyrs pyrs chlhMCyw dh nf{k.k fnokj dh lh/k es vkdj if'pe es eqMdj vkxs c<rs gq, if'pe dh leLr vkcknh dks ysrs gq, fprkSM lhesaV QSDV <sup>ah</sup> ds nf{k.k if'pe dksus rd igqapdj bls chp dh leLr vkcknh okMZ uacj 58 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd la[;k 175@1] 175@2] 176] 180 lEefyr gSA
----	----	--

59	59	bZ'ojyky jkes'ojyky jkBh dh nqdku ls izkajHk gksdj nf{k.k dh eq[; lMd ds lgkjs&lgkjs pydj iwoZ dh vkcknh dks ysrs gq, pkjHkqtk vkWVks ikV~ZI rd igqapdj QSDV <sup>ah</sup> dh jsYos ykbZu igqapdj iwoZ es eqMdj chlhMCY;w] lhMCY;w 'kkfey djrs gq, ifj"kn lhek rd igqapdj mÙkj es eqMdj HksjMk jksM rd igqapdj if'pe es eqMdj lMd ds nf{k.k dh vkcknh 24 DokVZj] Vksy gkml vkfn dks 'kkfey djrs gq, efgyk Luku?kj ds lkeus] jksM Øksl dj mÙkj fn'kk es jaxk Lokeh cLrh es tkdj iqu% if'pe es eqMdj Hkaoj uk;d ds edku dks 'kkfey djrs gq, iqu% mÙkj fn'kk es eqMdj if'pe dh vkcknh dks ysrs gq, dkyw th catkjk ds edku dks 'kkfey djrs gq, if'pe fn'kk es eqMdj vkxs c<rs gq, ykyflag jk.kkor ds edku dks 'kkfey djrs gq, izdk'k [kVhd ds edku rd igqapdj dPph xyh ds lgkjs&lgkjs iwoZ es eqMdj iqu% if'pe es eqMdj iRFkj LVkWd dks 'kkfey djrs gq, fprkSM HkhyokMk eq[; lMd ekxZ ij vkdj iqu% nf{k.k es eqMdj lMd ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, iwoZ dh leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jksM ds lgkjs&lgkjs c<rs gq, 'kkg gksVy dks 'kkfey dj iqu% bZ'ojyky jkes'ojyky jkBh dh nqdku dh lEiw.kZ vkcknh okMZ uacj 59 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd la[;k 178@1] 178@2] 177] 183@1] 183@2 lEefyr gSA
----	----	---



60	60	HksjM+k jksM fLFkr efgyk Luku/kj ds lkeus Mwaxj Çlg th ds edku ls çkjaHk gksdj iwoZ fn'kk esa pydj mÜkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, jkorksa dh pkSdh rd igqapdj leLr vkcknh dks 'kkfey djrs gq, uxj ikfydk lhek ls mÜkj esa ?kwedj pkeqaMk ekrk eafnj lqjHkh uxj vkfn leLr vkcknh 'kkfey djrs gq, ikfydk lhek ds lgkjs lgkjs pydj HkhyokM+k eq[; ekxZ ij fLFkr fxy gksVy rd igqapdj HkhyokM+k eq[; ekxZ dks Øksl dj jsyos LVs'ku vkSj jsyos ykbu Øksl dj ifj"kn lhek ds lgkjs&lgkjs pyrs gq, xaxk dksyksuh dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, nf{k.k es xqedj guqeku eafnj igqaprs gq, jsyos DokVZj dks ysrs gq, jksykgMk jksM ij fLFkr jsyos QkVd ij igqapdj iwoZ fn'kk es eqMdj jsYos ykbZu dks Øksl dj mÜkj dh vkcknh dks 'kkfey djrs gq, HkhyokM+k eq[; ekxZ ij igqapdj y{eh fe"Bku HkaMkj dks 'kkfey djrs gq, mÜkj fn'kk dh rjQ eqM+dj mÜkj fn'kk dh vksj vkxs c<+rs gq, gjh'k th iqjksfgr ds vkfQl ds lkeus ls IM+d Øksl dj iwoZ fn'kk esa pyrs gq, iRFkj ds LVkWd ds ikl ls dPph xyh ls iqu% vanj dh rjQ vkdj bls mÜkj dh vkcknh 'kkafrdkfUr isV <sup>a</sup> ksy iai vkfn {ks=ksa dks 'kkfey djrs gq, f'ko cLrh dks 'kkfey djrs gq, lkeqnkf;d Hkou dks 'kkfey djrs gq, mÜkj iwoÉ dh leLr vkcknh ysrs gq, iqu% HksjMk jksM ij fLFkr efgyk Luku?kj ds lkeus Mwaxj Çlg ds edku rd igqapdj leLr vkcknh okMZ uacj 60 dgyk;sxhA ftles tux.kuk CykWd la;k 179] 181@1] 181@2 lfEefyr gSA
----	----	---

## प्रपत्र-ख

1	नगर परिशद का नाम	चित्तौड़गढ़		नगर पालिका क्षेत्र में	
2	वार्डों की संख्या	60		कुल जनसंख्या कुल	116406
(क)	कुल वार्ड	60		कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या	15380
(ख)	साधारण	37		कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	4197
(ग)	अनुसूचित जाति	8		वार्डों की औसत जनसंख्या की	1940
(घ)	अनुसूचित जनजाति	2		औसत से 10 प्रति त कम	1746
(ड)	पिछडा वर्ग	13		औसत से 10 प्रति त अधिक	2134
(च)	महिला वर्ग				
	क साधारण	12			
	ख अनुसूचित जाति	3			
	ग अनुसूचित जनजाति	1			
	घ पिछडा वर्ग	4			

**नोट:-** वार्ड संख्या ब्लॉक संख्या 2011 की जनगणना को जो प्रस्ताव में सम्मिलित किये गये हैं, सभी ब्लॉक 1 से 229 तक सम्पूर्ण भाग से बनाये गये हैं कोई भी ब्लॉक आंशिक नहीं है।

vk;qDr  
uxj ifj"kn  
fpUkkSM+x<+

.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।